

भाग—III**हरियाणा सरकार**

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 दिसम्बर, 2018

संख्या सांका०नि० 1/संवि०/अनु० 309/2018.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ग) क्षेत्रीय कार्यालय सेवा नियम, 2012, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ग) क्षेत्रीय कार्यालय सेवा (संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ग) क्षेत्रीय कार्यालय सेवा नियम, 2012 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में नियम 5 में, 'चालीस वर्ष' शब्दों के स्थान पर, "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 9 में, उपनियम (1) में, खण्ड (ड) से (त) तथा उनके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(ड) पटवारियों की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्त द्वारा;

(ढ) आशुलिपिकों की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्त द्वारा;

(ण) लिपिकों की दशा में,—

- (i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 20 प्रतिशत ग्रुप घ के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्त द्वारा;

(त) ग्राम सचिवों की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्त द्वारा;।

4. उक्त नियमों में, नियम 14 में,—

- (i) उप नियम (1) में, "1987" अंकों के स्थान पर, '2016' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
- (ii) उप नियम (2) में, "हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप-नियम(1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ)" अंकों, शब्दों, चिह्नों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 2016, के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ)" अंक, शब्द, चिह्न तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	1	4	5	स्तर 6—सैल—1 = रु0 35400
2	उप अधीक्षक	8	35	43	स्तर 6—सैल—1 = रु0 35400
3	मुख्य प्रारूपकार	1	22	23	स्तर 6—सैल—1 = रु0 35400
4	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	70	477	547	स्तर 6—सैल—1 = रु0 35400
5	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	2	6	8	स्तर 6—सैल—1 = रु0 35400
6	समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी	86	54	140	स्तर 6—सैल—1 = रु0 35400
7	प्रारूपकार	15	11	26	स्तर 6—सैल—1 = रु0 35400
8	लेखाकार	76	97	173	स्तर 6—सैल—1 = रु0 35400
9	सहायक	235	90	325	स्तर 6—सैल—1 = रु0 35400
10	लेखा लिपिक	12	142	154	स्तर 4—सैल—1 = रु0 25500
11	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	—	4	4	स्तर 4—सैल—1 = रु0 25500
12	चालक	72	104	176	स्तर 4—सैल—1 = रु0 25500+100 विशेष वेतन
13	पटवारी	130	—	130	स्तर 4—सैल—1 = रु0 25500
14	रेखाकार	2	—	2	स्तर 3—सैल—1 = रु0 21700
15	आशुलिपिक	71	114	185	स्तर 2—सैल—1 = रु0 19900+100 विशेष वेतन
16	लिपिक	245	118	363	स्तर 2—सैल—1 = रु0 19900
17	ग्राम सचिव	900	1337	2237	स्तर 2—सैल—1 = रु0 19900

टिप्पणः—

- विकास तथा पंचायत विभाग हेतु अनुभाग अधिकारी (अधीनस्थ लेखा सेवा) के तीस पद स्वीकृत है, जो वित्त विभाग हरियाणा से भरे जाने हैं।
- विकास तथा पंचायत विभाग हेतु नायब तहसीलदार का एक पद स्वीकृत है, जो राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग से भरा जाना है।
- पदोन्नति, सेवानिवृत्ति तथा किन्ही अन्य कारणों से रिक्त होने वाला रेखाकार का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा, चूंकि रेखाकार का संवर्ग हास संवर्ग है।
- ग्राम सचिव तथा पटवारी की दशा में जिला संवर्ग बनाया जाएगा, तथापि, उनकी ज्येष्ठता राज्य स्तर की होगी तथा तदनुसार बनाई जाएगी। जिलावार इन पदों का विवरण परिशिष्ट—क—1 से संलग्न है।

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 'ख' में खाना संख्या 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 12, 13, 14, 15, 16 तथा 17 उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“12.	चालक	(i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी हलका या भारी वाहन वैद्य चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।	पदोन्नति द्वारा— (i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी हलका या भारी वाहन वैद्य चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) गुप घ कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (iv) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; (v) विभाग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए; (vi) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (vii) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए; स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी हलका या भारी वाहन वैद्य चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हल्का या भारी वाहन चालन के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।
13	पटवारी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा; (ii) मैट्रिक स्तर या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत/उर्दू; (iii) पटवार स्कूल में कम से कम एक वर्ष की अवधि के पश्चात् हरियाणा राजस्व पटवारी (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2011 के परिशिष्ट 'ड' में यथाविहित तथा परिशिष्ट 'च' में दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर पटवार परीक्षा पास की हो तथा परीक्षा पास करने के पश्चात् छह मास का ऐसा व्यावहारिक क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।	स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा पास की हो; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत/उर्दू; (iii) पटवार स्कूल में कम से कम एक वर्ष की अवधि के पश्चात् हरियाणा राजस्व पटवारी (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2011 के परिशिष्ट 'ड' में यथाविहित तथा परिशिष्ट 'च' में दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर पटवार परीक्षा पास की हो तथा परीक्षा पास करने के पश्चात् छह मास का ऐसा व्यावहारिक क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
14	रेखाकार	ह्रास संवर्ग	
17	ग्राम सचिव	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से मैट्रिक/हायर सेकेण्डरी/10+2 या इसके समकक्ष; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।	स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) ग्राम सचिव के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।”।

7. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:—

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियों का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील अधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	निदेशक	I छोटी शास्तियां हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट। II बड़ी शास्तियां हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट।	निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
2	उप अधीक्षक					
3	मुख्य प्रारूपकार	मुख्य अभियन्ता		मुख्य अभियन्ता	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
4	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	निदेशक		निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
5	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)					
6	समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी					
7	प्रारूपकार	मुख्य अभियन्ता		मुख्य अभियन्ता	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
8	लेखाकार	निदेशक		निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
9	सहायक					
10	लेखा लिपिक					
11	कनिष्ठ आशुलिपिक					
12	चालक	संयुक्त निदेशक		संयुक्त निदेशक	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
13	पटवारी	उपायुक्त				
14	रेखाकार	मुख्य अभियन्ता		मुख्य अभियन्ता		
15	आशुलिपिक	संयुक्त निदेशक		संयुक्त निदेशक		
16	लिपिक					
17	ग्राम सचिव	उपायुक्त		उपायुक्त		

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य / अरिक्त् पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्त् की समाप्त् ।	निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
2	उप अधीक्षक		मुख्य अभियन्त्ता	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
3	मुख्य प्रारूपकार				
4	कनिष्ठ अभियन्त्ता (सिविल)		निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
5	कनिष्ठ अभियन्त्ता (विद्युत्)				
6	समाज शिक्षा एवं पंचायत्त अधिकारी				
7	प्रारूपकार		मुख्य अभियन्त्ता	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
8	लेखाकार		निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
9	सहायक				
10	लेखा लिपिक				
11	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक				
12	चालक		संयुक्त् निदेशक	निदेशक	प्रशासनिक सचिव ।” ।
13	पटवारी		उपायुक्त्		
14	रेखाकार		मुख्य अभियन्त्ता		
15	आशुलिपिक		संयुक्त् निदेशक		
16	लिपिक		उपायुक्त्		
17	ग्राम सचिव				

सुधीर राजपाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 28th December, 2018

No. G.S.R. 1/Const./Art.309/2018.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Development and Panchayats Department (Group C) Field Offices Service Rules, 2012, namely:-

1. These Rules may be called the Haryana Development and Panchayats Department (Group C) Field Offices (Amendment) Service Rules, 2018.
2. In the Haryana Development and Panchayats Department (Group C) Field Offices rules, 2012 (hereinafter called the said rules), in rule 5, for the word “forty”, the words and sign “forty-two” shall be substituted .
3. In the said rules, in rule 9, in Sub-rule (1) against clause (m) to (p) for existing entries, thereagainst the following clauses and entries thereagainst shall be substituted, namely:-
 - (m) in case of Patwari,-
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
 - (n) in case of Steno-typist,-
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
 - (o) in case of clerk,-
 - (i) 80 per cent by direct recruitment; and
 - (ii) 20 per cent by promotion from amongst employees of Group D; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
 - (p) in case of Gram Sachiv,-
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
4. In the said rules, in rule 14,-
 - (i) in sub-rule (1), for the figures ‘1987’, the figures ‘2016’ shall be substituted; and
 - (ii) in sub-rule (2), for the words, brackets, figures and signs “ under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987”, the words, brackets, figures and signs “under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016” shall be substituted.

5. In the said rules, for Appendix A, the following Appendix shall be substituted, namely :-

“APPENDIX-A

(see rule 3)

Serial Number	Designation of Post	Number of Posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1.	Circle Head Draftsman	1	4	5	Level-6- cell-1 = Rs. 35400/-
2.	Deputy Superintendent	8	35	43	Level-6- cell-1 = Rs. 35400/-
3.	Head Draftsman	1	22	23	Level-6- cell-1 = Rs. 35400/-
4.	Junior Engineer (Civil)	70	477	547	Level-6- cell-1 = Rs. 35400/-
5.	Junior Engineer (Electrical)	2	6	8	Level-6- cell-1 = Rs. 35400/-
6.	Social Education and Panchayat Officer	86	54	140	Level-6- cell-1 = Rs. 35400/-
7.	Draftsman	15	11	26	Level-6- cell-1 = Rs. 35400/-
8.	Accountant	76	97	173	Level-6- cell-1 = Rs. 35400/-
9.	Assistant	235	90	325	Level-6- cell-1 = Rs. 35400/-
10.	Accounts Clerk	12	142	154	Level- 4-cell-1 = Rs. 25500/-
11.	Junior Scale Stenographer	--	4	4	Level- 4-cell-1 = Rs. 25500/-
12.	Driver	72	104	176	Level- 4-cell-1 = Rs. 25500/- + 100 Special Pay.
13.	Patwari	130	--	130	Level-4-cell-1= Rs. 25500/-
14.	Tracer	2	--	2	Level -3- cell -1= Rs. 21700/-
15.	Steno Typist	71	114	185	Level-2-cell-1= Rs. 19900/-+100 Special Pay
16.	Clerk	245	118	363	Level-2-cell-1= Rs. 19900/-
17.	Gram Sachiv	900	1337	2237	Level-2-cell-1= Rs. 19900/-

- Note:**
- Thirty posts of Section Officers (SAS) are sanctioned for Development and Panchayat Department, which are filled from the Finance Department.
 - One post of Naib Tehsildar is sanctioned for Development and Panchayat Department, which are filled from the Revenue and Disaster Management, Department.
 - The post of Tracer vacated due to promotion, retirement and any other reason shall be abolished automatically since the cadre of tracer is diminishing cadre.
 - District Cadre would be maintained in the case of Gram Sachiv and Patwari. However, their inter-se seniority would be of state level and maintained accordingly, District wise break-up of these posts appended herewith as Appendix-A-1.”.

6. In the said rules, in Appendix B, under columns 1,2,3 and 4 for the serial numbers 12, 13, 14, 15, 16 and 17 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“12.	Driver	<ul style="list-style-type: none"> (i) Matric; (ii) Should have a light or heavy vehicle valid driving licence atleast three years old; (iii) Should have passed the driving test conducted by the Haryana Staff Selection Commission; (iv) Should not be colour blind; (v) Hindi/Sanskrit upto Matric or higher education; 	<p>By Promotion:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Matric; (ii) Three years experience as Group D employee, (iii) Should have a light or heavy vehicle valid driving licence atleast three years old; (iv) Should have the passed the driving test conducted by the Department; (v) Should not be colour blind; (vi) Hindi/Sanskrit upto Matric or higher education; (vii) Should not be more than fifty years of age; <p>By Transfer/Deputation:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Matric; (ii) Should have a light or heavy vehicle valid driving licence atleast three years old; (iii) Three years experience of driving light or heavy vehicle; (iv) Should not be colour blind; (v) Hindi/Sanskrit upto Matric or higher education.
13.	Patwari	<ul style="list-style-type: none"> (i) Graduate or its equivalent examination from a recognized University; (ii) Hindi/Sanskrit/Urdu up to Matric or higher education; (iii) Qualify the Patwar examination as prescribed in Appendix E on the basis of syllabus given in Appendix F of the Haryana Revenue Patwaris (Group C) Services Rules, 2011 after attending the patwar school for minimum period of one year and after passing the examination undergoes such practical field training for a period of six months as may be specified by the Director. 	<p>By Transfer or Deputation.</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Graduate or its equivalent examination from a recognized University; (ii) Hindi/Sanskrit/Urdu up to Matric or higher education; (iii) Qualify the Patwar examination as prescribed in Appendix E on the basis of syllabus given in Appendix F of the Haryana Revenue Patwaris (Group C) Services Rules, 2011 after attending the patwar school for minimum period of one year and after passing the examination undergoes such practical field training for a period of six months as may be specified by the Director.
14	Tracer	Diminishing cadre	
15	Gram Sachiv	<ul style="list-style-type: none"> (i) Matric/Higher Secondary/10+2 (Vocational) from any recognized Institution or its equivalent; (ii) Hindi/ Sanskrit upto Matric or higher education ; and 	<p>By Transfer or Deputation-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Two years experience as Gram Sachiv; and (ii) Hindi/ Sanskrit upto Matric or higher education.” .

7. In the said rules, for Appendix C and D, the following Appendix shall be substituted, namely :-

“APPENDIX- C

(see rule 14(1))

Serial Number	Designation of Post	Appointing authority	Name of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second appellate authority
1	2	3	4	5	6	7
1.	Circle Head Draftsman	Director	(I) MINOR PENALTIES	Director	Administrative Secretary	Government
2.	Deputy Superintendent	Director	As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 (II) MAJOR PANATLILES As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016	Director	Administrative Secretary	Government
3.	Head Draftsman	Chief Engineer		Chief Engineer	Director	Administrative Secretary
4.	Junior Engineer (Civil)	Director		Director	Administrative Secretary	Government
5.	Junior Engineer (Electrical)	Director		Director	Administrative Secretary	Government
6.	Social Education and Panchayat Officer	Director		Director	Administrative Secretary	Government
7.	Draftsman	Chief Engineer		Chief Engineer	Director	Administrative Secretary
8.	Accountant	Director		Director	Administrative Secretary	Government
9.	Assistant	Director		Director	Administrative Secretary	Government
10.	Accounts Clerk	Director		Director	Administrative Secretary	Government
11	Junior Scale Stenographer	Director		Director	Administrative Secretary	Government
12.	Driver	Joint Director		Joint Director	Director	Administrative Secretary
13	Patwari	Deputy Commissioner		Deputy Commissioner	Director	Administrative Secretary
14.	Tracer	Chief Engineer		Chief Engineer	Director	Administrative Secretary
15.	Steno Typist	Joint Director		Joint Director	Director	Administrative Secretary
16.	Clerk	Joint Director		Joint Director	Director	Administrative Secretary
17.	Gram Sachiv	Deputy Commissioner		Deputy Commissioner	Director	Administrative Secretary

APPENDIX- D

(see rule 14(2))

Serial Number	Designation of Post	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second appellate authority
1	2	4	5	6	7
1.	Circle Head Draftsman	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; (ii) Terminating the appointment of a member of service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Director	Administrative Secretary	Government
2.	Deputy Superintendent		Director	Administrative Secretary	Government
3.	Head Draftsman		Chief Engineer	Director	Administrative Secretary
4.	Junior Engineer (Civil)		Director	Administrative Secretary	Government
5.	Junior Engineer (Electrical)		Director	Administrative Secretary	Government
6.	Social Education and Panchayat Officer		Director	Administrative Secretary	Government
7.	Draftsman		Chief Engineer	Director	Administrative Secretary
8.	Accountant		Director	Administrative Secretary	Government
9.	Assistant		Director	Administrative Secretary	Government
10.	Accounts Clerk		Director	Administrative Secretary	Government
11.	Junior Scale Stenographer		Director	Administrative Secretary	Government
12.	Driver		Joint Director	Director	Administrative Secretary
13.	Patwari		Deputy Commissioner	Director	Administrative Secretary
14.	Tracer		Chief Engineer	Director	Administrative Secretary
15.	Steno Typist		Joint Director	Director	Administrative Secretary
16.	Clerk		Joint Director	Director	Administrative Secretary
17.	Gram Sachiv		Deputy Commissioner	Director	Administrative Secretary

SUDHIR RAJPAL,
Principal Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.